

प्रेस नोट दिनांक- 16.07.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 27 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीहू तथा 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

i. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अवधेश कुमार पटेल पुत्र स्व0 राजाराम नि0 बरौनीतीर मजरा रूकमा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा चित्रकूट को 27 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूध्द थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

27 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी अनुज विश्वकर्मा
3. आरक्षी संदीप कुमार

ii. उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुन्दर पुत्र चौभाई निवासी सुहेल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूध्द थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना मऊ
2. आरक्षी विवेक कुमार

(2). आज दिनांक-16.07.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में तहसील राजापुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में मुख्य चिकित्साधिकारी चित्रकूट, उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर, प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री एन0के0 नागर, थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पुलिस एवं राजस्व के अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). आज दिनांक-16.07.2022 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी सदर श्रीमती पूजा यादव एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की उपस्थिति में तहसील कर्वी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). आज दिनांक 15.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(5). आज दिनांक-15.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।